



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 53]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 31, 1983/कार्तिक 9, 1905

No. 53]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 31, 1983/KARTIKA 9, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर, 1983

आ. अ. 97(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के उपबन्धों के अनुसरण में, और अपनी अधिसूचना सं. 434/अ.नि. द्वीप/79, तारीख 6 अक्टूबर, 1979 को अधिश्रुत करते हुए, निर्वाचन आयोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र सरकार के एरामर्श में उपायुक्त, अंडमान जिला पोर्ट ब्लेयर को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग आफिसर के रूप में एतद्वारा पदाभिहित करता है।

[सं. 434/अ.नि. द्वीप/83]

ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 19th October, 1983

O. N. 97(E).—In pursuance of the provisions of Section 21 of the Representation to the People Act, 1951 (43 of 1951) and in supersession of the Commission's Notification No. 434/A&NI/79

dated 6th October, 1979, the Election Commission hereby designates, in consultation with the Government of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, the Deputy Commissioner, Andaman District, Port Blair to be the Returning Officer for the Andaman and Nicobar Islands Parliamentary Constituency.

[No. 434/A&NI/83]

आ. अ. 98(अ) :—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपनी तारीख 6 अक्टूबर, 1979 की अधिसूचना सं. 434/अ.नि. द्वीप/79(1) को अधिश्रुत करते हुए निर्वाचन आयोग निम्नलिखित सरकारी आफिसरों को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में सहायता करने के लिए, एतद्वारा नियुक्त करता है :

1. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पोर्ट ब्लेयर।
2. सहायक आयुक्त, माया बन्दर।
3. सहायक आयुक्त, ननकोरी।
4. सहायक आयुक्त, कैम्पबेल बे।

५. उपायुक्त. जिला कार निकोबार ।

[सं. 434/अ. नि. द्वीप/83(1)]

आदेश से,

के. गणेशन, सचिव

O.N. 98(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), and in supersession of the Commission's Notification No. 434/A&NI/79(1) dated 6th October 1983, the Election Commission hereby appoints the following Officers of Government to assist the Returning Officer of the Andaman and

Nicobar Islands Parliamentary Constituency in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, in the performance of his functions:—

1. Additional District Magistrate, Port Blair.
2. Assistant Commissioner, Mayabunder.
3. Assistant Commissioner, Nancowry.
4. Assistant Commissioner, Cambell Bay.
5. Deputy Commissioner, District of Car Nicobar.

[No. 434/A&NI/83(1)]

By Order,

K. GANESAN, Secy.